

कक्षा - 4

(मुफ्त ही मुफ्त)

कठिन शब्द

1. मुलायम
2. शक्कर
3. चटकारा
4. समस्या
5. उचकाकर
6. घुरघुराते
7. थपथपाया
8. कोलाहल
9. बंदरगाह
10. घसीटते
11. पच्चीस
12. हर्ज
13. मुफ्त
14. घुड़सवार

शब्द - अर्थ

1. समस्या - परेशानी
2. उचकाकर- उठाकर
3. कंजूस - लालची
4. दाम - कीमत / मूल्य
5. टहलना - घूमना
6. हर्ज - परेशानी

विलोम शब्द / विपरीतार्थक शब्द

1. ताजा - बासा
2. खर्च - बचत / कमाना
3. कंजूस - दिलदार
4. फैलाकर - सुकडाकर
5. बचत - खर्च
6. पसंद - नापसंद
7. सागर - रेगिस्तान
8. ठंडा - गर्म
9. मुफ्त - खरीदना

वचन -बदलो

1. नारियल - नारियलों
2. पैसा - पैसे
3. व्यापारी - व्यापारियों
4. आवाज - आवाजों
5. चेहरा - चेहरे
6. जेब - जेबों
7. नाव - नावों
8. बगीचा - बगीचे
9. घोडा - घोड़े

प्रश्न -उत्तर

प्रश्न 1. हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे ! क्यों ?

उत्तर - भीखू भाई हर बार कम दाम देना चाहते थे ,क्योंकि वे बहुत कंजूस थे !

प्रश्न 2. हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था ?

उत्तर - हर जगह नारियल के दाम में फर्क इसीलिए था ,क्योंकि जिस जगह(बगीचा) नारियल पैदा होता है , वहाँ वह कम

कीमत पर मिलता है ,और बाज़ार तक जाते -जाते प्रत्येक जगह पर उसका मूल्य बढ़ता जाता है !

प्रश्न 3. क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त मिला था !
क्यों ?

उत्तर - नहीं , भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला था ,उन्हें कड़ी धूप में बगीचे तक पैदल चलना पड़ा था और अंत में एक बड़ा नारियल उनके सर पर भी आ फूटा था !

प्रश्न 4. भीखू भाई के घर से बगीचे तक जाने को दर्शाओ ?

उत्तर - भीखुभाई का घर - नारियल वाले की दुकान -
नारियल की मंडी - बन्दरगाह - नाव वाला - बगीचा